



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3—जुलाई 9, 2004 (आषाढ़ 12, 1926)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3—JULY 9, 2004 (ASADHA 12, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

PART III—SECTION 1

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 19 अप्रैल 2004

सं. ए-32013/1/04-प्रशा.-1(I)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.03.2004 के का. ज्ञा. सं. 21/11/04-सी.एस.-I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, के. स. से. के निम्नलिखित अधिकारी जो कि वर्तमान में इस कार्यालय में उप सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत हैं, को रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तारीख	अभ्युक्ति
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	एस. एल. गुप्ता	09.04.2004	08.04.2004 तक अवकाश पर
2.	के. सी. कटोच	25.03.2004	

1	2	3	4
	सर्वश्री		
3.	एस. आर. शर्मा	25.03.2004	
4.	पी. वी. मैथ्यू	25.03.2004	
5.	एस. एल. कुमार	25.03.2004	
6.	वी. के. त्रिखा	25.03.2004	
7.	वाई. के. मिश्रा	25.03.2004	
8.	एम. वेंकटरमन	25.03.2004	
9.	के. के. गुप्ता	25.03.2004	31.03.2004 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
10.	एस. आर. पांडेय	25.03.2004	
11.	पी. एस. नायर	25.03.2004	
12.	एस. बी. सिन्हा	25.03.2004	

1	2	3	4
	सर्वश्री		
13.	एम. एम. एस. रोहल	25.03.2004	
14.	राजेन्द्र बिष्ट	25.03.2004	
15.	जतिन्द्र कुमार	25.03.2004	
16.	डी. सी. भट्ट	08.04.2004	07.04.2004 तक अवकाश पर

2. उपरोक्त अधिकारी की तदर्थ आधार पर नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि यह अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा के. स. से. के चयन ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का कोई हक नहीं होगा।

3. उपरोक्त अधिकारियों की नियुक्ति आयोग कार्यालय में उप सचिव के सृजन किए गए सोलह पदों के द्वारा की गई है।

3. अवर सचिव के 16 पद, जो कि इन अधिकारियों के लिए वैयक्तिक रूप से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नत किए गए हैं, उनके द्वारा पद त्याग दिए गए हैं और आयोग के कार्यालय में अवर सचिव की सामर्थ्य में शामिल कर लिया गया है।

पी. के. कैलाशाबाबू
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/04/2004-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री आर. वी. प्रसाद, भा. अर्थ. से. (93) को 15 अप्रैल, 2004 अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उपसचिव के पद पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी. के. कैलाशाबाबू
अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110069, दिनांक 24 मई 2004

सं. ए-32013/1/04-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के का. जा. सं. 21/6/04-सी.एस.-I (खण्ड-II) के अनुसरण में, के.स.से. के संघर्ष के अधिकारी श्री एस. निकलोस कुजूर (जन्म तिथि 11.11.60) (अ.ज.जा.) जो वर्तमान में इस कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 16 अप्रैल, 2004 से रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर इन शर्तों के अधीन है कि उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने का या नियमित नियुक्ति वालों की चयन सूची में शामिल होने अथवा के.स.से. (अवर सचिव) ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

3. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति आयोग कार्यालय में अवर सचिव का एक पद बनने के कारण की गई है।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जून 2004

सं. डीपी/पर्स.-1/2004/2228/3/21/2004--राष्ट्रपति ने श्री डी. मुखर्जी, भा.पु. सेवा (तमिलनाडु : 1971) को 19 मई, 2004 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 16 जून 2004

सं. डीपी/पर्स.-1/2004/2315/3/19/2002-पर्स.-1--श्री कश्मीर सिंह ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 31.05.2004 (अपराह्न) से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2004

सं. 3/4/2000-प्रशा.-I--निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के कार्यालय के डॉ. एन. एस. पाण्डेय, सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), नई दिल्ली को प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने पर दिनांक 28 मई, 2004 अपराह्न से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I (शस्त्र शाखा) के पद से निदेशक, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ के कार्यालय में सहायक निदेशक के रूप में तैनाती के लिए कार्यमुक्त किया गया।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा व हक) का कार्यालय, कर्नाटक

बेंगलूर, दिनांक 1 जून 2004

सं. स्थापना-1/ए8/एओ/2004-05/40--महालेखाकार (ले. व ह.) ने श्री वी. रघोत्तम, सहायक लेखा अधिकारी (कर्मचारी क्रोड

संख्या : 19751012) को पूर्णतया अस्थाई रूप में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर दिनांक 01.06.2004 के पूर्वाह्न से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से (जो भी बाद में हो) अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया है।

2. मूल नियमावली एफ.आर. 22(I)(ए)(i) के अनुसार उच्चतर वेतनमान पर वेतन निर्धारण करने के लिए पदोन्नति की तारीख से एक महीने के अन्दर उन्हें अपना विकल्प देना होगा।

ह./- अपठनीय
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 16 जून 2004

सं. का.स्था./ह व रो/ई-IV-पै/45--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्त होने की तिथि
1.	श्रीमती टी. राधामणि अम्मा	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2004 अ. (अधिवर्षिता)
2.	श्रीमती के. एस. उदयाकुमारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2004 अ. (अधिवर्षिता)
3.	श्रीमती सी. आर. प्रस्टीना	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	31.05.2004 अ. (अधिवर्षिता)
4.	श्रीमती के. ए. बेबी	सहायक लेखा अधिकारी	31.05.2004 अ. (अधिवर्षिता)

ह./- अपठनीय
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 12 जून 2004

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1.	श्री ई. दामोदर रेड्डी	स.ले.प. अधिकारी	31.05.2004 (अपराह)

श्रीनिवासु
उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नत तिथि
1.	श्री एस. वी. नारायण रेड्डी	28/28.05.2004	31.05.2004 (पूर्वाह्न)
2.	श्री वी. महदेव	29/31.05.2004	01.06.2004 (पूर्वाह्न)
3.	श्री एम. अप्पा राव-II	29/31.05.2004	01.06.2004 (पूर्वाह्न)

उपर्युक्त पदोन्नतियां उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं। भारत सरकार का.ज्ञा. सं. एफ-7/1/80-स्था. (पी.-1) दिनांक 26.09.1981 तथा एफ-13/26/82 स्था. (पी.-1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

श्रीनिवासु
उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वैच्छिक/अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथियों से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री बी. वी. रामकृष्ण राजू	व.ले.प.अ.	06.05.2004 (पूर्वाह्न) (स्वैच्छिक)
2.	श्री सत्यनारायण शर्मा	व.ले.प.अ.	31.05.2004 (अपराह)
3.	श्री एम. एल. एन. शर्मा	व.ले.प.अ.	31.05.2004 (अपराह)

श्रीनिवासु
उप महालेखाकार (प्रशा.)

महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2004

महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने श्रीमती वी. वेंकट लक्ष्मी, श्री सी. जी. श्रीनिवास प्रसाद, श्री एस. गुरुप्रसाद एवं श्री शेखरकुमार घाटे, अनुभाग अधिकारियों को रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान पर महायक लेखा अधिकारी के रूप में 01.06.2004(पूर्वाह) के प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

दो. राधाकृष्णमूर्ति
उप महालेखाकार (प्रशासन)

समक्ष दिखाई गई तारीख से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिर्वर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	राम बाबू निम	07.04.1944 30.04.2004	01.05.2004
2.	आर. बी. एस. सर्मा	29.04.1944 30.04.2004	01.05.2004
3.	ननकू राम	01.05.1944 30.04.2004	01.05.2004

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

रक्षा लेखा विभाग
कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 17 जून 2004

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दी गई तारीख से रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है और तदनुसार उनके समक्ष दिखाई गई तारीख से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख स्वैच्छिक सेवा- निवृत्ति तथा संख्याबल से हटाए जाने की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
1.	श्री विजयरामकृष्ण गोखले	14.11.1946 02.05.2004 (पूर्वाह)	02.05.2004 (पूर्वाह)

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिर्वर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	वी. रामचन्द्रन	17.05.1944 31.05.2004	01.06.2004
2.	वी. एस. मार्कण्डे	20.05.1944 31.05.2004	01.06.2004
3.	एम. के. धूपर	01.06.1944 31.05.2004	01.06.2004
4.	एस. प्रभाकरन	22.05.1944 31.05.2004	01.06.2004
5.	एस. के. शुक्ला	10.05.1944 31.05.2004	01.06.2004
6.	के. वेंकट राव	12.05.1944 31.05.2004	01.06.2004

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-1/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दी गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है और तदनुसार उनके

सं. प्रशा.-I/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
सर्व/श्री			
1.	राजपाल सिंह	04.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
2.	आर. एल. खरबंदा	08.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
3.	टी. नंद कुमारन	08.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
4.	रवि दत्त शर्मा	11.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
5.	एस. नागराज	11.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
6.	ए. सत्यनारायण	13.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
7.	मेहराम सिंह	15.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
8.	ज्योति प्रसाद	15.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
9.	एस. ए. वेंकटरमन	18.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
10.	सिद्धेश्वर प्रसाद	23.02.1944 29.02.2004	01.03.2004
11.	टी. वी. बालासुब्बा- मणियन	29.02.1944 29.02.2004	01.03.2004

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख के नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार प्रत्येक

के समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
सर्व/श्री			
1.	बृज राज शर्मा	10.03.1944 31.03.2004	01.04.2004
2.	एम. सी. वलसाराजन	11.03.1944 31.03.2004	01.04.2004
3.	के. के. दलेला	12.03.1944 31.03.2004	01.04.2004
4.	धर्मपाल सिंह	15.03.1944 31.03.2004	01.04.2004
5.	एन. अमरेसन नायर	01.04.1944 31.03.2004	01.04.2004

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

सं. प्रशा.-I/1467/5/1(जी)--भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी, जो सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर चले गए हैं, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है और तदनुसार उनके समक्ष दिखाई गई तारीख से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित कर दिया गया है :--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख स्वैच्छिक सेवा- निवृत्ति तथा संख्याबल से हटाए जाने की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किए जाने की तारीख
1.	श्री उमंग मोहन	03.01.1958 14.04.2004 (पूर्वाह)	14.04.2004 (पूर्वाह)

राजेश सिंह
रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(ई.पी.आई. अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2004

सं. सी.-18018/1/97-ई.पी.आई. (पार्ट-2)--केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में कार्यरत अधोलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों

ने प्रोन्नति के आधार पर केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में दिनांक 28.4.2004 (पूर्वाह्न) से 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में उप सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) समूह "क" राजपत्रित पद का कार्यभार संभाल लिया है :--

1. श्री टी. के. कुलश्रेष्ठ
2. डॉ. (श्रीमती) दीपा गोवाल
3. श्री संदीप चक्रवर्ती

ए. के. पुरी
उप निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली-110012, दिनांक जून 2004

सं. 5-153/2003-स्थापना-I--श्री आर. बी. मांझी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, 07 मई 2004 के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972, के नियम 48 के अधीन, दिनांक 11 जून 2004, के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं।

जयदेव कपिला
उप निदेशक (प्रशासन)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 14 जून 2004

सं. एईसी-1(2)/04--राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन सम्बन्धी भारत सरकार के दिनांक 1 मार्च, 1958 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा., (समय-समय पर यथा संशोधित) के पैराग्राफ 3(ए) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

पैराग्राफ 3 (ए)

आयोग में पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या तीन से कम और दस से अधिक नहीं होगी।

2. तदनुसार, समय-समय पर यथा-संशोधित सरकार के दिनांक 1 मार्च, 2004 के संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा. की एक प्रति इसके साथ प्रेषित है।

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन

दिनांक 01 मार्च 1958 का संकल्प सं. 13/7/58-प्रशा.

(निम्नलिखित द्वारा यथा संशोधित)

दिनांक 06 मार्च, 1962 का संकल्प सं. डीई/सी-1-एच

दिनांक 24 जनवरी 1981 का संकल्प सं. 3(5)/81-एडमिन.-I

दिनांक 13 अक्टूबर 1983 का संकल्प सं. 3(5)/81-एडमिन.-I

दिनांक 20 मार्च, 1984 का संकल्प सं. एईसी-1(2)/84

दिनांक 17 मार्च 1986 का संकल्प सं. 1(2)/86

दिनांक 14 जून 2004 का नोट सं. एईसी-1(2)/2004

परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई और तब से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में महत्वपूर्ण एवं तीव्र गति से प्रगति हुई है और भविष्य के लिए एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य भारत को परमाणु ऊर्जा के उपयोग हेतु आवश्यक सभी मूलभूत पदार्थों के उत्पादन में सक्षम बनाना तथा परमाणु बिजलीघरों की श्रृंखला का निर्माण करना है जो देश में विद्युत शक्ति के उत्पादन में वृद्धि हेतु अपना योगदान देंगे। इन विकास कार्यों के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके पास गहन तकनीकी एवं आर्थिक सिद्धान्तों पर आधारित अपनी योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का पूर्ण अधिकार हो और जो सभी अनावश्यक प्रतिबन्धों या गैर लचीले नियमों से मुक्त हो। ऐसे संगठन का निर्माण करते समय परमाणु ऊर्जा की विशिष्ट आवश्यकताओं, क्षेत्र की नवीनतम, उसकी गतिविधियों के सामरिक तथा इसके अन्तर्राष्ट्रीय एवं राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखना होगा।

2. गम्भीरतापूर्वक विचार के पश्चात् भारत सरकार ने लगभग रेलवे बोर्ड के मॉडल पर आधारित पूर्ण कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियों से युक्त परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह आयोग, पूर्ववर्ती वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में दिनांक 10 अगस्त 1948 की अधिसूचना सं. एफ-402/डीएसआर/48, जिसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है, के द्वारा स्थापित आयोग को प्रतिस्थापित करेगा।

3. आयोग का गठन

(क) आयोग में पूर्ण कालिक एवं अंशकालिक सदस्य होंगे और आयोग के कुल सदस्यों की संख्या तीन से कम एवं दस से अधिक नहीं होगी।

(ख) भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग में सचिव, आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(ग) आयोग का एक सदस्य, सदस्य, वित्त होगा जो परमाणु ऊर्जा विभाग में वित्तीय मामलों में भारत सरकार का पदेन सचिव भी होगा।

4. कार्य

परमाणु ऊर्जा आयोग के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे :--

(क) प्रधानमंत्री के विचारार्थ एवं अनुमोदन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की नीति तैयार करना।

- (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार करना एवं सरकार से इसे अनुमोदित कराना।
- (ग) परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित सभी मामलों में सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।

5. संसद द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों की सीमा के अन्दर परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों को करने के लिए आयोग के पास भारत सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों शक्तियां सन्निहित होंगी।

6. अध्यक्ष :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव की हैसियत से अध्यक्ष, तकनीकी मामलों में निर्णय लेने तथा परमाणु नीति से सम्बन्धित मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के अधीन उत्तरदायी होंगे। नीतिगत एवं सम्बन्धित मामलों में आयोग की सभी सिफारिशें अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाएंगी।

(ख) अध्यक्ष को आयोग के अन्य सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, सिवाय सदस्य, वित्त के, जिन्हें किसी भी वित्तीय मामले, जिसमें वे अध्यक्ष से सहमत नहीं हैं, को प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री को भेजने हेतु मांग करने का अधिकार होगा।

(ग) अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णयानुसार आयोग के किसी भी सदस्य को समय-समय पर जारी सामान्य या विशिष्ट आदेशों के तहत अपनी ओर से शक्तियों एवं दायित्वों के प्रयोग हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

7. सदस्य, वित्त

सदस्य, वित्त परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित वित्तीय मामलों में भारत सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे सिवाय उन शक्तियों के जो विभाग के पास निहित हैं या भविष्य में विभाग को प्रदान या प्रत्यायोजित की जाएंगी।

8. आयोग के पास अपनी कार्यविधि से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति होगी। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयों एवं स्थानों पर आयोग की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 12 जून 2004

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-0227/341--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री टी. वी. पद्मनाभन, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई', (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1179/342--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री जी. वी. सुब्बा राव, वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ', (वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 31.01.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1231/343--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री के. एन. एस. गुप्ता, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई', (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-2856/344--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री आई. गोपालम, वैज्ञानिक अधिकारी 'सी', (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) ने दिनांक 31.05.2004 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक जून, 2004

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उन के समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री जी. मिश्रा, वैज्ञानिक अधिकारी-एफ	31.05.2004	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

तिरुवनन्तपुरम-695022, दिनांक 8 जून 2004

सं. वी एस एस सी/स्था./एफ/1(17)--नियंत्रक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा निम्न वैयक्तिक सहायक-क

को परियोजना आशुलिपिक सहायक के रूप में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति पर विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में उनके नाम के आगे दी हुई तारीख से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रभाग	तारीख
01.	श्री आर. श्रीधरन	ईपीजी	05.03.2004
02.	श्रीमती के. लीला	आर एफ एस जी	05.03.2004
03.	श्रीमती के. अम्बिका	एम एम जी	05.03.2004
04.	श्री पी. गौतमन	सी पी एस डी	05.03.2004
05.	श्री एस. वरदवेंकटेशन	एल वी आई जी	05.03.2004
06.	श्रीमती एल. पद्मकुमारी	सी पी सी सी	05.03.2004
07.	श्रीमती एस. प्रसन्नकुमारी	डी टी डी	05.03.2004
08.	श्रीमती जे. सुजाता	एस टी एस	05.03.2004
09.	श्री पी. वी. श्रीधरन	सी जी डी जी	05.03.2004
10.	श्री पी. रवीन्द्रन	आई आई डी	05.03.2004
11.	श्रीमती वी. एस. वत्सला	पी ई पी एफ	05.03.2004
12.	श्री एन. एम. पणिककर	एल वी आई जी	05.03.2004
13.	श्री वी. जनार्दन नायर	पी एस सी जी	05.03.2004
14.	श्री एन. कुट्टपन नायर	जी एस एल वी	05.03.2004
15.	श्री के. दामोदरन नंबूतिनी	जी एस एल वी	08.03.2004

ए. के. सोमशेखरन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार

श्रीहरिकोट-524124, दिनांक 31 मई 2004

सं. एससीएफ/पीजीए/स्थापना-II/15/04/538--नियंत्रक, शार केन्द्र, निर्मांकित कर्मचारियों को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति पर प्रत्येक कर्मचारी के आगे अंकित तारीखों से स्थापनापन्न क्षमता के रूप में आगामी आदेश जारी होने तक सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार, श्रीहरिकोट में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्री/श्रीमती		
01.	एस. आर. नागराजा	सहायक कैंटीन प्रबन्धक	12.03.2004
02.	जी. ईश्वर रेड्डी	परियोजना आशुलिपिक सहायक	15.03.2004

1	2	3	4
03.	एस. आदीशेश शर्मा	परियोजना आशुलिपिक सहायक	15.03.2004
04.	सी. एच. जगमोहन राव	परियोजना आशुलिपिक सहायक	15.03.2004
05.	सी. एच. सुधाकर	परियोजना आशुलिपिक सहायक	15.03.2004
06.	एम. नरसीह मूर्ति	परियोजना आशुलिपिक सहायक	16.03.2004
07.	वाई. नागेश्वर राव	परियोजना आशुलिपिक सहायक	16.03.2004
08.	वाई. सरस्वती देवी	परियोजना आशुलिपिक सहायक	16.03.2004
09.	पी. सेशागिरी राव	परियोजना आशुलिपिक सहायक	16.03.2004
10.	जी. वीराब्रह्मम	परियोजना आशुलिपिक सहायक	16.03.2004
11.	एन. आर. भीमा राव	परियोजना आशुलिपिक सहायक	22.03.2004
12.	एम. एस. एन. मूर्ती	परियोजना आशुलिपिक सहायक	22.03.2004
13.	ई. वीजयकुमार	सहायक लेखा अधिकारी	05.04.2004
14.	राधा जैसीहा	सहायक प्रशासन अधिकारी	05.04.2004
15.	जे. वेंकटेश्वरलू	सहायक क्रय व भंडार अधिकारी	07.04.2004
16.	ए. सुरेन्द्र कुमार	सहायक क्रय व भंडार अधिकारी	19.04.2004

वी. प्रसाद
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान, कृते नियंत्रक

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 जून 2004

सं. ए-32016/4/96-स्था.-1--इस कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 28.05.2003 तथा 03.12.2003 की पूर्व अधिसूचना सं. 32016/4/96-स्था.-1 के क्रम में, महानिदेशक नागर विमानन, श्री काशी राम, विमान अनुसंधान इंजीनियर (शीट मेटल शॉप) की फोरमैन (शीट मेटल शॉप) के पद पर, 7,450-225-11,500/- रु. के वेतनमान में, अनुसंधान एवं विकास निदेशालय में, पदोन्नति को पूर्णतः तदर्थ आधार पर

28.5.2004 से आगे छः माह की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, सहर्ष आगे बढ़ाते हैं।

यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर. एस. कटारिया
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

दिनांक 10 जून 2004

सं. ए-32013/5/02-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री प्रीतम सिंह नियंत्रक उड़नयोग्यता को नागर विमानन विभाग में दिनांक 04.06.2004 से 31.7.2004 तक या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में निदेशक उड़नयोग्यता के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

दिनांक 11 जून 2004

सं. ए-12025/3/98-स्था.-1--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति श्री जगन्नाथ मंडल को नागर विमानन विभाग में दिनांक 14 मई, 2004 (पूर्वाह्न) से एवं अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में स्थानापन्न क्षमता में उड़नयोग्यता अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. कटारिया
उप निदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कंपनी कार्य विभाग)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कासमण्डा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/20173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कासमण्डा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेन्सियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स आर. के. रिजोर्ट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/11852--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर. के. रिजोर्ट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स क्लासिक मास्टर क्राफ्ट्स कारपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/11261--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स क्लासिक मास्टर क्राफ्ट्स कारपेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स निशकाम पीठ प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/11745--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स निशकाम पीठ प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शूची सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/13657--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शूची सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कमफर्ट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/19566--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कमफर्ट बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स हाईटेक एग्रो कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/15698--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हाईटेक एग्रो कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कान्ति टोबैको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/25817--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कान्ति टोबैको प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वी. एम. इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/7875--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वी. एम. इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्सर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कुमार बर्नफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/3951--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कुमार बर्नफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स ए. एस. साल्वेन्ट एक्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/13645--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. एस. साल्वेन्ट एक्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मैसर्स विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

कानपुर-1, दिनांक 16 जून 2004

सं. एल.सी./560(3)/27018--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विश्वास नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कोन्याक विनियर एण्ड सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

शिलांग, दिनांक 18 जून 2004

सं. आरओसी/सुपरिन्टेन्डेंट/14-01743/560/1171/75--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नामित कम्पनी ने 'त्वरित पथ योजना' (Fast Track Scheme) के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा धारित रजिस्टर से कम्पनी का नाम काट देने हेतु आवेदन किया है। यदि इस विषय में कोई आपत्ति हो तो कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को संसूचित किया जाए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अनापत्ति प्राप्त हो जाता है तो कम्पनी का नाम इस कार्यालय के अभिलेख से काट दिया जाएगा।

डी. बन्दोपाध्याय
कम्पनी रजिस्ट्रार
असम, मेघालय इत्यादि

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नागालैन्ड विनियर एण्ड सॉ मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में ।

शिलांग, दिनांक 18 जून 2004

सं. आरओसी/सुपरिन्टेन्डेंट/14-01743/560/1176/80--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नामित कम्पनी ने 'त्वरित पथ योजना' (Fast Track Scheme) के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा धारित रजिस्टर से कम्पनी का नाम काट देने हेतु आवेदन किया है। यदि इस विषय में कोई आपत्ति हो तो कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिन की अवधि के भीतर अधोहस्ताक्षरी को संसूचित किया जाए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अनापत्ति प्राप्त हो जाता है तो कम्पनी का नाम इस कार्यालय के अभिलेख से काट दिया जाएगा।

डी. बन्दोपाध्याय
कम्पनी रजिस्ट्रार
असम, मेघालय इत्यादि

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में ।

कटक-753001, दिनांक 18 जून 2004

सं. आरओसी/एसईएस-560/2003/607--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-02637	मैसर्स चन्दन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
02.	15-05332	मैसर्स श्री कृष्णा ग्राइन्डिंग वर्क्स लिमिटेड
03.	15-01222	मैसर्स विजया ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
04.	15-03912	मैसर्स एईएस उड़ीसा आपरेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
05.	15-03321	मैसर्स आईबी वैली पावर प्राईवेट लिमिटेड
06.	15-05469	मैसर्स विप्रा गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
07.	15-05407	मैसर्स कंक्रीट आईडियाज मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड।

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में ।

कटक-753001, दिनांक 18 जून 2004

सं. आरओसी/एसईएस-560/2003/640--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01.	15-05508	मैसर्स टेलिनेट सर्व एण्ड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
02.	15-03908	मैसर्स स्वान मेराइन प्राईवेट लिमिटेड
03.	15-06965	मैसर्स परमार मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
04.	15-04274	मैसर्स माल्यगिरी एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
05.	15-02465	मैसर्स एल. के. पी. कम्प्यूटर्स एण्ड मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
06.	15-02344	मैसर्स एल. एम. लाइम्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
07.	15-01244	मैसर्स उषा पारसन्स लिमिटेड
08.	15-05566	मैसर्स त्रिमूर्ती कंक्रिट्स प्राईवेट लिमिटेड
09.	15-01498	मैसर्स गौतम बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	15-02726	मैसर्स एसेस एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-02649	मैसर्स यू. डी. कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-02269	मैसर्स नीरज इन्वेस्टमेन्ट एण्ड कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-02440	मैसर्स गनपति इन्फोटेक लिमिटेड
14.	15-02411	मैसर्स वन्दना एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-03124	मैसर्स उत्कल पोलिस एण्ड पाइप्स लिमिटेड
16.	15-01356	मैसर्स उड़ीसा शटल मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-05896	मैसर्स ब्रजराज नगर पेपर मिल्स लिमिटेड
18.	15-03468	मैसर्स परफेक्ट इम्पोर्टेक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-03752	मैसर्स काजल मेराइन प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-02373	मैसर्स इन्वेन्ट लाइम एण्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	15-05539	मैसर्स लिंगराज कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
22.	15-01214	मैसर्स क्लासिक ब्याजेरस प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-02453	मैसर्स ब्लू लाइम एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-03891	मैसर्स श्री गणेश केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-00836	मैसर्स ब्रिक्स (इण्डिया) कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-02858	मैसर्स होटल प्रभा प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-02794	मैसर्स नवीन एल्युमिनियम कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-06990	मैसर्स श्री लक्ष्मी नारायण स्पन्ज आइरन प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-05413	मैसर्स साइनोसर कन्सलटेन्सी लिमिटेड
30.	15-06284	मैसर्स शिवानी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-04863	मैसर्स प्रोटेक केमिकल एण्ड (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-04909	मैसर्स आर. डी. पटनायक ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-03278	मैसर्स गोल्डेन ट्राइएंगल प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-04124	मैसर्स ब्राइट होराइजन (इण्डिया) लिमिटेड
35.	15-02421	मैसर्स जगन्नाथ सामंतराय टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-02076	मैसर्स साम्स एग्रीको एण्ड फिसरीज प्राईवेट लिमिटेड
37.	15-06667	मैसर्स चुइन एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-01718	मैसर्स हर्स्टन प्रापर्टीज कन्सल्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-05715	मैसर्स तुलसी रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-04770	मैसर्स नीलगिरी ब्रोडिंग फार्म प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-03765	मैसर्स श्री विनायक फाइनोन्सियल सर्विसेज लिमिटेड
42.	15-05546	मैसर्स अग्रसेन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-02385	मैसर्स रेखा पालीयुरेथिन प्राईवेट लिमिटेड
44.	15-04626	मैसर्स समृद्धि कॉर्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-04627	मैसर्स माराथर कामोट्रेड प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
46.	15-04878	मैसर्स विजया फूड प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-02391	मैसर्स राजत इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
48.	15-04219	मैसर्स इंट्रीसी प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-02394	मैसर्स निसाचल एलॉइज प्राईवेट लिमिटेड
50.	15-03045	मैसर्स सनसाइन फैशन प्राईवेट लिमिटेड
51.	15-06381	मैसर्स महापात्र एसोसिएट एण्ड रीयल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
52.	15-00866	मैसर्स इंडियन सिरामिक प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-06453	मैसर्स डेकावायर सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-03757	मैसर्स एस्टीम कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	15-06310	मैसर्स बजरंग माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
56.	15-06175	मैसर्स महावीर माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड
57.	15-01257	मैसर्स सत्यरवी होटलियर प्राईवेट लिमिटेड
58.	15-03618	मैसर्स अमन बिजनेस कम्बाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	15-04543	मैसर्स साल्ट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
60.	15-02409	मैसर्स इस्पात जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट इण्डिया लिमिटेड
61.	15-05933	मैसर्स गंगामारदन मिनरल डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
62.	15-02270	मैसर्स बून फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	15-01802	मैसर्स खरीयर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
64.	15-04676	मैसर्स स्टायलो कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	15-02098	मैसर्स रामपाल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
66.	15-05366	मैसर्स मेपल मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	15-04149	मैसर्स सरला कम्बाइन कोक प्राईवेट लिमिटेड
68.	15-03352	मैसर्स समरदीप इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
69.	15-05798	मैसर्स फेस्टिव फेयर प्राईवेट लिमिटेड
70.	15-01646	मैसर्स आरोड़ा ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स क्रिम्पी डिस्टिलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।

पणजी, दिनांक 18 जून 2004

सं. 56-001263/560(3)/447--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्रिम्पी डिस्टिलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित की दी जाएगी।

जी. के. पुरवार
कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमण एवं दीव

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 19th April 2004

No. A-32013/01/2004-Admn.-I(i).—In pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 21/11/2004-CS.I dated 25-03-2004, the President is pleased to appoint the following Officers of CSS, who are presently working as Deputy Secretaries (in-situ) in this Office, as Deputy Secretaries on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- w.e.f. the date shown against each :—

Sl. No.	Name	Date	Remarks
1.	S/Shri S. L. Gupta	09.04.2004	was on leave upto 08.04.2004
2.	K. C. Katoch	25.03.2004	
3.	S. R. Sharma	25.03.2004	
4.	P. V. Mathew	25.03.2004	
5.	S. L. Kumar	25.03.2004	
6.	V. K. Trikha	25.03.2004	
7.	Y. K. Misra	25.03.2004	
8.	M. Venkataraman	25.03.2004	
9.	K. K. Gupta	25.03.2004	Retired on superannuation w.e.f. 31.03.2004
10.	S. R. Pandey	25.03.2004	
11.	P. S. Nair	25.03.2004	
12.	S. B. Sinha	25.03.2004	
13.	M. M. S. Rohal	25.03.2004	
14.	Rajindra Bist	25.03.2004	
15.	Jatinder Kumar	25.03.2004	
16.	D. C. Bhatt	08.04.2004	was on leave upto 07.04.2004

2. The appointment of the above officers on ad-hoc basis is subject to the condition that the same shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.

3. The appointment of the above officers have been made by creating sixteen posts of Deputy Secretary in the Commission's Office:

4. The sixteen posts of Under Secretaries, which were upgraded to the level of Deputy Secretaries as personal to these officers stand demitted by them and brought on the strength of Under Secretary in the Commission's Office.

P. K. KAILASA BABU
Under Secy. (Admn.)

No. A-19014/04/2004-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri R. V. Prasad, IES (93), as Deputy Secretary in the Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on central deputation for a period of four years w.e.f. the afternoon of 15th April 2004 or until further orders, whichever is earlier.

P. K. KAILASA BABU
Under Secy. (Admn.)

New Delhi, the 24th May 2004

No. A-32013/01/2004-Admn.-I.—In pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 21/06/2004-CS.-I(ii) dated 16th April 2004, the President is pleased to appoint Shri S. Nieckloas Kujur (Date of Birth : 11.11.1960) (ST), an Officer of CSS, who is presently working as Section Officer in this Office, as Under Secretary on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 16th April 2004.

2. The appointment of the above officer on ad-hoc basis is subject to the condition that the same shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

3. The appointment of the above Officer has been made by creating one post of Under Secretary in the Commission's Office.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 9th June 2004

No. DP/Pers.-I/2004/2228/3/19/2004.—The President is pleased to appoint Shri D. Mukherjee, IPS (TN : 1971) as Additional Director in Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of May 19, 2004 until further orders.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

The 16th June 2004

No. DP/Pers.-I/2004/2315/3/19/2002-Pers.-I.—Shri Kashmira Singh, relinquished the charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.05.2004 (AN) on superannuation.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Pers.)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH &
DEVELOPMENT)**

New Delhi-110003, the 16th June 2004

No. 3/4/2000-Admn.-I.—Dr. N. S. Pandey, Assistant Director, Office of the Director, Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh relinquished charge of the Office of Senior Scientific Officer Grade-I (Weapons Branch), Bureau of Police Research and Development (MHA), New Delhi with effect from the afternoon of 28th May, 2004 for his further posting as Assistant Director in the Office of the Director, Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
KARNATAKA**

Bangalore, the 1st June 2004

No. ESI/A-8/AO/2004-2005/40.—The Accountant General (A & E) is pleased to promote Shri Raghothama, B., Assistant Accounts Officer (E.C. No. 19751012) as Accounts Officer carrying the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01-06-2004 (FN) or from the date of assuming charge whichever is later in a purely temporary capacity until further orders.

2. Option has to be exercised by him for fixation of pay in the higher scale in terms of Rule FR 22(I)(a)(i) within one month from the date of promotion.

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),
KERALA**

Thiruvananthapuram, the 16th June 2004

No. O.E/E & C/EIVP/45.—The following Officials of IA & AD retired from Service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1	2	3	4
1.	Smt. T. Radhamony Amma	Senior Accounts Officer	31.05.2004 (AN) (Superannuation)
2.	Smt. K. S. Udayakumari	Senior Accounts Officer	31.05.2004 (AN) (Superannuation)

1	2	3	4
3.	Smt. C. R. Prestina	Senior Accounts Officer	31.05.2004 (AN) (Superannuation)
4.	Smt. K. A. Baby	Assistant Accounts Officer	31.05.2004 (AN) (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL, ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500004, the 12th June 2004

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officer (Civil) with effect from the date noted against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of retirement
1.	Shri E. Damoder Reddy, A.A.O.	31.05.2004 (AN)

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officer" (Civil) in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of assumption of charge
	S/Shri		
1.	S. V. Narayana Reddy	28/28.05.2004	31.05.2004 (F.N.)
2.	V. Mahadev	20/31-05-2004	01-06-2004 (F.N.)
3.	M. Appa Rao-II	29/31.05.2004	01.06.2004 (F.N.)

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

The above officials should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government

of India O.M. No. F-7/1/80-Estt.(P-I) dated 26.09.1981 and F-13/26/82-Estt. (P-I) dated 08.02.1983.

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers with effect from the dates noted against their names :—

Sl. No.	Name and Designation	Date of retirement
	S/Shri	
1.	B. V. Rama Krishna Raju, Sr. A.O.	06.05.2004 (F.N.) (voluntarily retired)
2.	Satyanarayana Sarma, Sr. A.O.	31.05.2004 (A.N.)
3.	M. L. N. Sarma, Sr. A.O.	31.05.2004 (A.N.)

G. SRINIVAS
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A. & E.),
ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2004

The Accountant General (A. & E.), A.P., Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Section Officers to officiate as Assistant Accounts Officers in the Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as A.A.O.
1.	Smt. P. Venkata Lakshmi	Next Below Rule
2.	Shri C. V. Srinivasa Prasad	1.6.2004 (F.N.)
3.	Shri S. Guruprasad	1.6.2004 (F.N.)
4.	Shri Shekhar Kumar Ghatay	1.6.2004 (F.N.)

The promotions ordered are without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd./- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-66, the 17th June 2004

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officer of the Indian Defence Accounts Service, who has proceeded on voluntary retirement from the Government Service, on the date shown against his name has been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the date shown against him :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of voluntary retirement and struck off strength	Date on which transferred to the Pension Establishment
1.	Shri Vijayaramakrishna Gokhale	14.11.1946 02.05.2004 (F.N.)	02.05.2004 (F.N.)

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the dates shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	Ram Baboo Nim	07.04.1944 30.04.2004	01.05.2004
2.	R. B. S. Sarma	29.04.1944 30.04.2004	01.05.2004
3.	Nankoo Ram	01.05.1944 30.04.2004	01.05.2004

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the dates shown below their

date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	V. Ramachandran	<u>17.05.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004
2.	V. S. Markandeya	<u>20.05.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004
3.	M. K. Dhupar	<u>01.06.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004
4.	S. Prabhakaran	<u>22.05.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004
5.	S. K. Shukla	<u>10.05.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004
6.	K. Venkata Rao	<u>12.05.1944</u> 31.05.2004	01.06.2004

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the dates shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	Raj Pal Singh	<u>04.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
2.	R. L. Kharbanda	<u>08.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
3.	T. Nanda Kumaran	<u>08.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
4.	Ravi Dutt Sharma	<u>11.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
5.	S. Nagaraj	<u>11.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004

1	2	3	4
	S/Shri		
6.	A. Satyanarayana	<u>13.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
7.	Maharam Singh	<u>15.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
8.	Jyoti Prasad	<u>15.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
9.	S. A. Venkataraman	<u>18.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
10.	Sidheshwar Prasad	<u>23.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004
11.	T. V. Balasubramanian	<u>29.02.1944</u> 29.02.2004	01.03.2004

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the dates shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
	S/Shri		
1.	Brij Raj Sharma	<u>10.03.1944</u> 31.03.2004	01.04.2004
2.	M. C. Valsarajan	<u>11.03.1944</u> 31.03.2004	01.04.2004
3.	K. K. Dalela	<u>12.03.1944</u> 31.03.2004	01.04.2004
4.	Dharma Pal Singh	<u>15.03.1944</u> 31.03.2004	01.04.2004
5.	N. Ameresan Nair	<u>01.04.1944</u> 31.03.2004	01.04.2004

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

No. AN-1/1467/5/1(G).—The undermentioned officer of the Indian Defence Accounts Service, who has proceeded on voluntary retirement from the Government Service, on the date shown against his name has been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the date shown against him :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of voluntary retirement and struck off strength	Date on which transferred to the Pension Establishment
1.	S/Shri Umang Mohan	03.01.1958 14.04.2004 (F.N.)	14.04.2004 (F.N.)

RAJESH SINGH
Dy. Controller General
of Defence Accounts (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi-110011, the 15th June 2004

No. C-18018/1/97-EPI(Pt.-II).—The following Assistant Technical Officers working at Central Research Institute, Kasauli have assumed the charge of the post of Dy. Asstt. Director (Non-Medical) Group 'A' Gazetted in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- at Central Research Institute, Kasauli on promotion basis with effect from 28.04.2004 (F.N.).

1. Shri T. K. Kulshreshtha
2. Dr. (Mrs.) Deepa Goyal
3. Shri Sandeep Chakravarty

A. K. PURI
Dy. Director (Admn.)

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION) DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi-110012, the June 2004

No. 5-153/2003-Estt.(I).—With reference to his request dated the 7th May, 2004, Shri R. B. Manjhi, Assistant Administrative Officer in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, retires voluntarily from Government Service under Rule 48 of CSS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 11th June, 2004.

J. D. KAPILA
Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 14th June 2004

No. AEC-1(2)/04—The President is pleased to decide that paragraph 3(a) of the Government of India Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 1958 (as amended from time to time) constituting the Atomic Energy Commission be amended to read as follows :

Paragraph 3(a)

The Commission shall consist of full time and part time members and the total number of members shall not be less than three and not more than ten.

2. Accordingly, a copy of the Government Resolution No. 13/7/58-Adm. dated March 1, 2004, as amended from time to time, is being forwarded herewith.

K. MURALIDHAR
Secy. to the Atomic Energy Commission

CONSTITUTION OF THE ATOMIC ENERGY COMMISSION

Resolution No. 13/7/58-Adm. of March 1, 1958, as amended by :

Note Nos. DAE/C-1-H dt. March 6, 1962, 3(5)/81-Admn.-I dt. January 24, 1981, 3(5)/81-Admn.-I dt. October 13, 1983, AEC-1(2)/84 dt. March 20, 1984, AEC-1(2)/86 dt. March 17, 1986 and Note No. AEC-1(2)/04 dated June 14, 2004.

The Department of Atomic Energy was established in August, 1954 and since then research and development in the peaceful uses of atomic energy have made important and rapid strides and a greatly expanded programme is envisaged for the future, in the course of which India should be able to produce all the basic materials required for the utilisation of atomic energy and build a series of atomic power stations, which will contribute increasingly to the production of electric power in the country. These developments call for an organisation with full authority to plan and implement the various measures on sound technical and economic principles and free from all non-essential restrictions or needlessly inelastic rules. The special requirements of atomic energy, the newness of the field, the strategic nature of its activities and its international and political significance have to be borne in mind in devising such an organisation.

2. After careful consideration, the Government of India have decided to establish an Atomic Energy Commission with full executive and financial powers, modelled, more or less, on the lines of the Railway Board. This Commission will replace the Commission set up in the late Department of Scientific Research Notification No. F-402/DSR/48, dated 10th August, 1948, which is hereby cancelled.

3. Constitution of the Commission

- (a) The Commission shall consist of full-time and part-time members and the total number of members shall not be less than three and not more than ten.
- (b) The Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be the ex-officio Chairman of the Commission.
- (c) A member of the Commission shall be the Member for Finance, who shall also be ex-officio Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy in financial matters.

4. Functions

The Atomic Energy Commission shall be responsible :

- (a) for formulating the policy of the Department of Atomic Energy for the consideration and approval of the Prime Minister.
- (b) for preparing the budget of the Department of Atomic Energy for each financial year and getting it approved by Government; and
- (c) for the implementation of Government's policy in all matters concerning atomic energy.

5. Within the limits of the budget provision, approved by Parliament, the Commission shall have the powers of the Government of India, both administrative and financial, for carrying out the work of the Department of Atomic Energy.

6. Chairman

- (a) The Chairman in his capacity as Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy shall be responsible under the Prime Minister for arriving at decisions on technical questions and advising Government on matters of atomic policy. All recommendations of the Commission on policy and allied matters shall be put up to the Prime Minister through the Chairman.
- (b) The Chairman shall have the power to overrule the other members of the Commission, except that the Member for Finance shall have the right to ask that any financial matter, in which he does not agree with the Chairman, be referred to the Prime Minister and the Finance Minister.
- (c) The Chairman may authorise any member of the Commission to exercise on his behalf, subject to such general or special orders as he may issue from time to time, such of his powers and responsibilities as he may decide.

7. Member for Finance

The Member for Finance shall exercise the powers of the Government of India in financial matters concerning

the Department of Atomic Energy except in so far as such powers have been, or may in future be, conferred on or delegated to the Department.

8. The Commission shall have power to frame its own rules of procedure. The Commission shall meet at such times and places as may be fixed by the Chairman.

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 12th June 2004

No. NFC/Adm./Pen./EC-0227/341.—On attaining the age of superannuation, Shri T. V. Padmanabhan, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2004 (A.N.).

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

No. NFC/Adm./Pen./EC-1179/342.—On attaining the age of superannuation, Shri G. V. Subba Rao, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2004 (A.N.).

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

No. NFC/Adm./Pen./EC-1231/343.—On attaining the age of superannuation, Shri K. N. S. Gupta, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2004 (A.N.).

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

No. NFC/Adm./Pen./EC-2856/344.—On attaining the age of superannuation, Shri L. Gopalam, Scientific Officer 'C' (Scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2004 (A.N.).

G. KOTESWARA RAO
Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION AND RESEARCH)

Hyderabad-500016, the June 2004

No. AMD-51(59)/2002-Pen.—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned :—

Sl. No.	Name and designation	Date of relinquishment
---------	----------------------	------------------------

1.	Shri G. Mishra, Scientific Officer—F	31.5.2004
----	---	-----------

K. DAMODARAN
Chief Administrative and Accounts Officer

DEPARTMENT OF SPACE
VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Thiruvananthapuram-695022, the 8th June 2004

No. VSSC/EST/F/1(17).—Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Personal Assistants—A as Project Stenographic Assistant in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Vikram Sarabhai Space Centre with effect from the dates shown against their names, until further orders :—

Sl. No.	Name	Division	With effect from
1	2	3	4
1.	Shri R. Sreedharan	EPG	05.03.2004
2.	Smt. K. Leela	RFSG	05.03.2004
3.	Smt. K. Ambika	MMG	05.03.2004
4.	Shri P. Goudaman	CPSD	05.03.2004
5.	Shri S. Varadavenkatesan	LVIG	05.03.2004
6.	Smt. L. Padma-kumari	CPCC	05.03.2004
7.	Smt. S. Prasanna-kumari	DTD	05.03.2004
8.	Smt. J. Sujatha	STS	05.03.2004
9.	Shri P. V. Sreedharan	CGDG	05.03.2004
10.	Shri P. Ravindran	IID	05.03.2004
11.	Smt. V. S. Valsala	PEPF	05.03.2004
12.	Shri N. M. Panicker	LVIG	05.03.2004

1	2	3	4
13.	Shri V. Janardhanan Nair	PSCG	05.03.2004
14.	Shri N. Kuttappan Nair	GSLV	05.03.2004
15.	Shri K. Damodaran Namboori	GSLV	08.03.2004

A. K. SOMASEKHARAN
Senior Administrative Officer

SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR

Sriharikota-524124, the 31st May 2004

No. SCF/PGA/Estt.-II/15/04/538.—The Controller, SDSC SHAR is pleased to appoint on promotion the following personnel to the post indicated against each in the grade of Rs. 6,500-200-10,500/- in an Officiating capacity with effect from the forenoon of the date mentioned against each and until further orders at SDSC SHAR, Sriharikota :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of appointment
1	2	3	4
01.	S/Shri/Smt. S. R. Nagaraja	Assistant Canteen Manager	12.03.2004
02.	G. Eswara Reddy	Project Stenographic Assistant	15.03.2004
03.	S. Audisesha Sarma	Project Stenographic Assistant	15.03.2004
04.	Ch. Jagannimohana Rao	Project Stenographic Assistant	15.03.2004
05.	Ch. Sudhakar	Project Stenographic Assistant	15.03.2004
06.	M. Narasimha Murthy	Project Stenographic Assistant	16.03.2004
07.	Y. Nageswara Rao	Project Stenographic Assistant	16.03.2004
08.	Y. Saraswathi Devi	Project Stenographic Assistant	16.03.2004

1	2	3	4
09.	P. Seshagiri Rao	Project Stenographic Assistant	16.03.2004
10.	G. Veerabrahmam	Project Stenographic Assistant	16.03.2004
11.	N. R. Bhima Rao	Project Stenographic Assistant	22.03.2004
12.	M. S. N. Murthy	Project Stenographic Assistant	22.03.2004
13.	E. Vijayakumar	Asstt. Accounts Officer	05.04.2004
14.	Radha Jaisimha	Asstt. Administrative Officer	05.04.2004
15.	J. Venkateswarlu	Asstt. Purchase & Stores Officer	07.04.2004
16.	A. Surendra Kumar	Asstt. Purchase & Stores Officer	19.04.2004

V. PRASAD
Senior Administrative Officer
Head Office
for Controller

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 7th June 2004

No. A-32016/4/96-E.I.—In continuation of this office earlier Notification No. A-32016/4/96-E.I dated 28.05.2003 & 03.12.2003, the Director General of Civil Aviation is pleased to extend the promotion of Shri Kashi Ram, Aircraft Maintenance Engineer (Sheet Metal Shop) to the post of Foreman (Sheet Metal Shop) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- in the Research and Development Directorate purely on ad-hoc basis for a further period of six months with effect from 28.05.2004 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

This issues with the approval of Department of Personnel & Training.

R. S. KATARIA
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

The 10th June 2004

No. A-32013/5/02-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Pritam Singh, Controller of Airworthiness to the grade of Director of Airworthiness in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in Civil Aviation Department on an ad-hoc basis with effect from 04.06.2004 to 31.07.2004 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

R. S. KATARIA
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

The 11th June 2004

No. A-12025/3/98-E.I.—On the basis of recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Jagannath Mondal in the post of Airworthiness Officer in Civil Aviation Department in an officiating capacity in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 14th May, 2004 and until further orders.

R. S. KATARIA
Deputy Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kasmanda Investment & Financials Services Private
Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/20173/3723.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kasmanda Investment & Financials Services Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. K. Resorts & Developers Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/11852/3120.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of the M/s. R. K. Resorts & Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Classic Master Craft Carpet Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/11261/3118.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Classic Master Craft Carpets Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nishkam Peeth Prakashan Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/11745/3133.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nishkam Peeth Prakashan Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shuchi Sales Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/13657/3131.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Shuchi Sales Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Comfort Builders Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/19566/3129.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Comfort Builders Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hightech Agro Consultancy Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/15698/3128.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Hightech Agro Consultancy Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kranti Tobacco Products Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/25817/3126.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kranti Tobacco Products Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. V. M. Investment & Financiers Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/7875/3124.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. V. M. Investment & Financiers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kumar Burnfuel Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/3951/3139.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kumar Burnfuel Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. A. S. Solvent Extractions Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/13645/3137.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. A. S. Solvent Extractions Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwas Network Marketing Private Limited.

Kanpur-208001, the 16th June 2004

No. 560(3)/LC/27018/3135.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Vishwas Network Marketing Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Konyak Veneer & Saw Mills Private Limited.

Shillong-1, the 18th June 2004

No. ROC/Supdt./14-01743/560/1171/75.—Notice is hereby given that the above-named Company has applied for striking off the name of the Company under Fast Track Scheme under Section 560 of the Companies Act, 1956 from the Register maintained by this Office, objection if any in the matter may please be intimated to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of issue of this Notice. If no objection is received within the time specified, the name of the Company will be struck off from the record of this Office.

D. BANDOPADHYAY
Registrar of Companies
Assam, Meghalaya etc.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nagaland Veneer & Saw Mills Private Limited.

Shillong-1, the 18th June 2004

No. ROC/Supdt./14-01742/560/1176-80.—Notice is hereby given that the above-named Company has applied for striking off the name of the Company under Fast Track Scheme under Section 560 of the Companies Act, 1956 from the Register maintained by this Office, objection if any in the matter may please be intimated to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of issue of this Notice. If no objection is received within the time specified, the name of the Company will be struck off from the record of this Office.

D. BANDOPADHYAY
Registrar of Companies
Assam, Meghalaya etc.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies.

Cuttack-753001, the 18th June 2004

No. ROC/SES-560/2003/607.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
01.	15-02637	M/s. Chandan Foods Private Limited.
02.	15-05532	M/s. Sri Krishna Grinding Works Limited.
03.	15-01222	M/s. Bijaya Trading Company Private Limited.

1	2	3
04.	15-03912	M/s. AES Orissa Operations Private Limited.
05.	15-03321	M/s. I.B. Valley Power Private Limited.
06.	15-05469	M/s. Vipra Gases Private Limited.
07.	15-05407	M/s. Concrete Ideas Marketing Private Limited.

BIBEKANANDA MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
following Companies.

Cuttack-753001, the 18th June 2004

No. ROC/SES-560/2003/640.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of the Registrar of Companies and are dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
01.	15-05508	M/s. Talent Search and Human Resources Developers Limited.
02.	15-03908	M/s. Swan Marine Private Limited.
03.	15-06965	M/s. Parmar Marketing Private Limited.
04.	15-04274	M/s. Malyagiri Agro Private Limited.
05.	15-02465	M/s. LKP Computers and Management Consultants Private Limited.
06.	15-02344	M/s. L. M. Limes (India) Private Limited.
07.	15-01244	M/s. Usha Parsons Limited.
08.	15-05586	M/s. Trimurty Concretes Private Limited.
09.	15-01498	M/s. Goutam Builders Private Limited.
10.	15-02726	M/s. Access Advertising Services Private Limited.
11.	15-02649	M/s. U. D. Constructions Private Limited.
12.	15-02269	M/s. Niraj Investment & Constructions Private Limited.

1	2	3
13.	15-02440	M/s. Ganapati Infotech Limited.
14.	15-02441	M/s. Vandana Agencies Private Limited.
15.	15-03124	M/s. Utkal Poles & Pipes Limited.
16.	15-01356	M/s. Orissa Shuttle Manufacturing Private Limited.
17.	15-05896	M/s. Brajraj Nagar Paper Mills Limited.
18.	15-03468	M/s. Perfect Imporex Private Limited.
19.	15-03752	M/s. Kajal Marine Products Private Limited.
20.	15-02373	M/s. Invent Lime & Chemicals Industries Private Limited.
21.	15-05539	M/s. Lingaraj Constructions Private Limited.
22.	15-01214	M/s. Classic Boyageurs Private Limited.
23.	15-05453	M/s. Blue Line Advertising Private Limited.
24.	15-03891	M/s. Sri Ganesh Chemicals Private Limited.
25.	15-00836	M/s. Bricks (India) Constructions Private Limited.
26.	15-02858	M/s. Hotel Prava Private Limited.
27.	15-02794	M/s. Navin Aluminium Company Private Limited.
28.	15-06990	M/s. Shree Laxmi Narayan Sponge Iron Private Limited.
29.	15-05413	M/s. Cynosure Consultancy Limited.
30.	15-06284	M/s. Sivani Builders Private Limited.
31.	15-04863	M/s. Protek Chemical & (India) Private Limited.
32.	15-04909	M/s. R. D. Pattnaik Brothers Private Limited.
33.	15-03278	M/s. Gloden Trangile Plantation Private Limited.
34.	15-04124	M/s. Bright Horizon (India) Limited.
35.	15-02421	M/s. Jaganath Samantaray Textiles Private Limited.
36.	15-02076	M/s. Sams Agrico & Fisheries Private Limited.
37.	15-06667	M/s. Chuin Export & Importers Private Limited.

1	2	3
38.	15-01718	M/s. Eastern Properties & Constructions Private Limited.
39.	15-05715	M/s. Tulsi Real Estate Private Limited.
40.	15-04770	M/s. Nilgiri Brooding Farm Private Limited.
41.	15-03765	M/s. Shree Vinayak Financial Services Private Limited.
42.	15-05546	M/s. Agrasen Laboratories Private Limited.
43.	15-02385	M/s. Reha Polyurethanes Private Limited.
44.	15-04626	M/s. Samridhi Commercial Private Limited.
45.	15-04627	M/s. Maruthar Commotrade Private Limited.
46.	15-04878	M/s. Vijaya Foods Private Limited.
47.	15-02391	M/s. Rout Estates Private Limited.
48.	15-04219	M/s. ETC Private Limited.
49.	15-02394	M/s. Neelachal Alloys Private Limited.
50.	15-03045	M/s. Sunshine Fashion Private Limited.
51.	15-06381	M/s. Mohapatra Associates & Real Estate Private Limited.
52.	15-00866	M/s. Indian Ceramics Private Limited.
53.	15-06453	M/s. Decaware Systems Private Limited.
54.	15-03757	M/s. Esteem Consultants Private Limited.
55.	15-06310	M/s. Bajrang Mining Private Limited.
56.	15-06175	M/s. Mahaveer Mining Private Limited.
57.	15-01257	M/s. Satyarabi Hotellier Private Limited.

1	2	3
58.	15-03618	M/s. Aman Business Combines Private Limited.
59.	15-04543	M/s. Salts India Private Limited.
60.	15-02409	M/s. Ispat General Finance and Investment India Limited.
61.	15-05933	M/s. Gandhamardan Mineral Development Company Limited.
62.	15-02270	M/s. Boon Pharmaceuticals Private Limited.
63.	15-01802	M/s. Khariar Trading Company Private Limited.
64.	15-04676	M/s. Stylo Construction Private Limited.
65.	15-02098	M/s. Rampal Industries Private Limited.
66.	15-05366	M/s. Maple Motors Private Limited.
67.	15-04149	M/s. Sarala Combine Coke Private Limited.
68.	15-03352	M/s. Samardeep Enterprises Private Limited.
69.	15-05798	M/s. Festive Fare Private Limited.
70.	15-01646	M/s. Arora Brothers Private Limited.

BIBEKANANDA MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Krimpi Distillery Private Limited.

Panaji, the 18th June 2004

No. 56-001263/D/560(3)/447.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof company M/s. Krimpi Distillery Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

G. K. PURWAR
Registrar of Companies
Goa, Daman & Diu